



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, मार्च 4—मार्च 10, 2018, शनिवार/फाल्गुन 13—फाल्गुन 19, 1939

No. 4] NEW DELHI, MARCH 4—MARCH 10, 2018, SATURDAY/PHALGUNA 13—PHALGUNA 19, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2018

**का.नि.आ. 14.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय नौसेना (अनुवाद अधिकारी हिन्दी अंग्रेजी) (सिविलियन) भर्ती नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय नौसेना सहायक निदेशक (राजभाषा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निर्हरता.**—वह व्यक्ति,-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	3* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -10 (रु. 56100-177500)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आवेदन द्वारा तथा विभिन्न प्रद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	2 वर्ष प्रोन्नति	प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आवेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आवेदन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<b>प्रोन्नति:</b> ऐसे ज्येष्ठ अनुवादक वेतन स्तर -7 रु. (44900-142400) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। तथा जिसने यथा विहित पांच सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया है। <b>टिप्पण :-</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की दशा में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहे हों, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा	<b>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे।</b> 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव(नौसेना)/संयुक्त सचिव (स्थापना), रक्षा मंत्रालय -सदस्य 3. प्रधान निदेशक, सिविलियन कार्मिक/निदेशक सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

<p>की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p><b>समुह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे।</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव(नौसेना)/ संयुक्त सचिव (स्थापना), रक्षा मंत्रालय -अध्यक्ष</li> <li>2. प्रधान निदेशक, सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) -सदस्य</li> <li>3. निदेशक, सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) -सदस्य</li> </ol>	
--	---	--

[सं. सीपी (जी) /1431/आरआर/स. नि. (ओ. एल. )/596/र. (नि.) /2017]

एस. एस. एस. सर्मा, निदेशक (स्थापन एवं सिविलियन कार्मिक)

**MINISTRY OF DEFENCE**

New Delhi, the 20th February, 2018

**S.R.O. 14.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Navy Translation Officer, Hindi/English (Civilian) Recruitment Rules, 1983 except in respects things done or omitted to be done before suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Director (Official Language), in Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy), namely:-

1. **Short title and commencement .**—(1) These rules may be called the Indian Navy Assistant Director (Official Language) Group 'A' post Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the above said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non - selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Director (Official Language)	03* ( 2018 ) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, 'Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level - 10 of Rs. (56100 – 177500)	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which is promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years	By promotion	<p><b>Promotion :-</b> Senior Translator in Pay level-7 Rs. (44900 – 142400) with 03 years regular service in the grade and has successfully completed the training of five weeks as prescribed.</p> <p><b>Note I:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) :</b></p> <p><b>Consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman</li> <li>Joint Secretary (Navy)/Joint Secretary (Establishment) Ministry of Defence - Member</li> <li>Principal Director of Civilian Personnel/ Director of Civilian Personnel - Member</li> </ol>	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy)	
<b>Departmental Confirmation Committee :- (For considering Confirmation):</b>	
1. Joint Secretary (Navy)/Joint Secretary (Establishment) Ministry of Defence	- Member
2. Principal Director of Civilian Personnel Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy)	- Member
3. Director of Civilian Personnel Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy)	- Member

[F. No. CP(G)/1431/(RR)/AD(OL)/ 596 /D(Apptts)/2017]

S. S. S. SARMA, Director (Estt./CP)

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2018

**का.नि.आ. 15.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 को जहाँ तक उसका संबंध आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति, -

क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख'	44* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
लागू नहीं होता।	18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण :-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन के रूप में दी जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान में बैचलर डिग्री।</p> <p>(ii) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रतिघंटा कम से कम 15000 कुंजी अवनमन की गति, कम्प्यूटर पर गति परीक्षण के माध्यम से निर्धारित की जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण 1-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष।	<b>सीधी भर्ती द्वारा :</b> <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार	लागू नहीं होता

	के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, अथवा (ii) जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हों।	
--	---	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<b>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b>  1. उप निदेशक, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष  2. सूचना पद्धति महानिदेशालय, प्रबंध सूचना पद्धति संगठन, सामान्य कर्मचारिवृंद शाखा, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) से उप निदेशक की प्रास्थिति का अधिकारी - सदस्य  3. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय, (रक्षा मंत्रालय के स्थापना विभाग द्वारा नाम निर्देशित) - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए/34015/मुप्रअ/भर्ती-2]

जीतेन्द्र कुमार, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

New Delhi, the 22nd February, 2018

**S.R.O. 15.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations, Data Entry Operator (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1999 in so far as they relate to the post of Data Entry Operator Grade 'B', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator Grade 'B' in the Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations, Data Entry Operator Grade 'B' (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Disqualification.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or,

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Data Entry Operator Grade 'B'</b>	44* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the Pay Matrix (₹29200 - 92300)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 25 years. (relaxable upto 40 years (upto 45 years in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates) in case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	(i) Bachelor's degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science of a recognised University or Institute;  (ii) A speed test of not less than 15000 key depressions per hour for data entry work to be ascertained through speed test on computer.  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretions of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.  <b>Note:</b> "Vacancies caused by the incumbent being away on	Not applicable.



	<p>deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.-</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in posts in Level-4 in the Pay Matrix (₹25500-81100); and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).”</p>	
--	---	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group `C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Deputy Director, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence —Chairman;</p> <p>(2) Officer of the status of Deputy Director from General Staff Branch, Directorate General of Information Systems, Management Information System Organisation Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) —Member;</p> <p>(3) Under Secretary, Ministry of Defence (to be nominated by Establishment Division, Ministry of Defence) —Member.</p>	Not applicable.

[F. No. A/34015/CAO/R-II]

JITENDRA KUMAR, Dy. Chief Administrative Officer

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2018

**का.नि.आ. 16.**—केंद्र सरकार वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 189 (2) (ड) तथा वायु सेना नियमावली के नियम 158 (च), 1969 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यक्षीन व्यक्तियों जो ऐसे अधिकारियों की कमान में सेना की यूनिटों अथवा नौसेना पोतों, अथवा स्थापनाओं अथवा वायु सेना यूनिटों अथवा सेना, नौसेना तथा वायु सेना के सदस्यों अथवा उनमें से किसी दो के साथ अंडमान एवं निकोबार कमान सहित एकीकृत सेना संगठनों अथवा स्थापनाओं से संबंध हैं अथवा उनमें सेवारत हैं उन पर कमान रखने के लिए सेना और नौसेना हेतु अधिकारियों की आवश्यकता होने के कारण एतद्वारा यह घोषणा करती है कि सेना और नौसेना के अधिकारी वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यक्षीन ऐसे व्यक्तियों जो ऐसे अधिकारियों की कमान वाली सेना यूनिटों अथवा नौसेना पोतों अथवा स्थापनाओं अथवा वायु सेना यूनिटों अथवा सेना, नौसेना तथा वायु सेना अथवा उनमें से किसी दो के सदस्यों सहित अंडमान एवं निकोबार कमान सहित एकीकृत सेना संगठनों अथवा स्थापनाओं से संबद्ध हैं अथवा उनमें कार्यरत हैं उन पर कमान रखेंगे।

[फा. सं. वायु मुख्यालय/25514/2/विधिक]

वृज कुमार, उप सचिव (वायु-1)

**टिप्पण :** नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 24 सितम्बर, 1969 की का.नि.आ. संख्या 310 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे । निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा नियम बाद में संशोधित किए गए थे :-

- (i) का.नि.आ. 358, दिनांक 08 जुलाई, 1970
- (ii) का.नि.आ. 83, दिनांक 19 दिसम्बर, 1971
- (iii) का.नि.आ. 24 ड. दिनांक 15 जून, 1974
- (iv) का.नि.आ. 186 दिनांक 02 जुलाई, 1982
- (v) का.नि.आ. 68 दिनांक 20 जनवरी, 1986
- (vi) का.नि.आ. 5 (ड.) दिनांक 08 नवम्बर, 1990
- (vii) का.नि.आ. 127 दिनांक 27 जुलाई, 1995
- (viii) का.नि.आ. 47 दिनांक 27 फरवरी, 1997
- (ix) का.नि.आ. 20 दिनांक 13 मार्च, 2012

New Delhi, the 21st February, 2018

**S.R.O. 16.**—There being a necessity for Officers of the Army and the Navy to exercise command over persons subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), who are attached to or are serving in Army Units or Naval Ships or Establishments; or Air Force Units Commanded by such Officers; or Unified Service Organisations or Establishments, including the Andaman & Nicobar Command, comprising members of the Army, Navy and Air Force or any two of them, the Central Government in exercise of powers conferred by Section 189 (2) (m) of the Air Force Act, 1950 (45 of 1950) and Rule 158 (f) of the Air Force Rules, 1969 hereby declare that the Officers of the Army and Navy will exercise, command over persons subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), who are attached to or serving in Army Units or Naval Ships or Establishments; or Air Force Units Commanded by such Officers; or Unified Service Organisations or Establishments, including the Andaman & Nicobar Command, comprising members of Army, Navy and Air Force or any two of them.

[F. No. Air HQ/25514/2/Lgl]

BRIJ KUMAR, Dy. Secy. (Air-I)

**Note:** The Rules were published vide SRO No. 310, dated 24<sup>th</sup> September 1969 in the Gazette of India. The Rules were subsequently amended vide notifications mentioned below:-

- (i) SRO 358, dated 08<sup>th</sup> July 1970.
- (ii) SRO 83, dated 19<sup>th</sup> December 1971.
- (iii) SRO 24E dated 15<sup>th</sup> June 1974.
- (iv) SRO 186 dated 02<sup>nd</sup> July 1982.
- (v) SRO 68 dated 20<sup>th</sup> January 1986.
- (vi) SRO 5 (E) dated 08<sup>th</sup> November 1990.
- (vii) SRO 127 dated 27<sup>th</sup> July 1995.
- (viii) SRO 47 dated 27<sup>th</sup> February 1997.
- (ix) SRO 20 dated 13<sup>th</sup> March 2012.